

पत्रांक 801 / जी०पी०

समादेष्टा का कार्यालय, बिहार सैन्य पुलिस-1, गोरखा वाहिनी, पटना।

दिनांक:- 13 मार्च 2021

प्रेषक,

समादेष्टा
बिहार सैन्य पुलिस-1, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।


विषय:- निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2020.21 के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2020.21 की प्रति (सी०डी० सहित) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के अगले दो संस्करणों में प्रकाशित करने की कृपा किया जाय।

अनु०- यथोपरि।

विश्वासभाजन



(विवेक कुमार, भा०पु०से०)

Office of the Commandant, Bihar Military Police-1, Gorkha BN. Patna.
Notice Inviting Quotation/Tender No-01/2020-21 for Band Instruments.

1. Name of the Department: Bihar Military Police-1, Patna.
2. Last Date & Time for the acceptance of the Quotation/Tender:- 11:00 AM of 28.04.2021.
3. Date & Time for the opening of the Quotation/Tender:- 14:00 PM of 28.04.2021.
4. Place fixed for receiving & opening the Quotation/Tender:-Bihar Military Police-1, Patna.
5. Detail of Job:- As specified Item as below mentioned.

i.	Bag Pipe	-	19 Pcs.
ii.	Side Drum	-	08 Pcs.
iii.	Side Trainer Drum	-	05 Pcs.
iv.	Base Dhol	-	01 Pcs.

Terms & Conditions of Quotation/Tender

1. All relevant papers/Certificates/specification etc. of item should be enclosed.
2. All charges like GST/BST/CST/Service Tax/VAT etc. shall be clearly mentioned in quotation and the net rate (figures and words) including all taxes and duties must be quoted. Vague offers like indicating taxes "as applicable" will not be accepted.
3. There should be no cutting, over writing or correction on the rates.
4. **The Quotation/Tender for the each item in each schedule should be submitted separately in separate envelope. Further within the main envelope for every item technical bid and financial bid should be kept in separate envelopes.**
5. Income Tax Returns of last three years, a photocopy of PAN of the participating firm.
6. Necessary registration with state govt. and their certificates must be attached
7. Any papers/documents will not be accepted after opening the quotation.
8. The firm will be required to supply all the items within the stipulated time frame as mentioned in the work order.
9. Payments for the delivered items will be made only after the acceptance report of the Committee of the Bihar Military Police- 1, Patna specifically made for this purpose.
10. The firm whose quotation is approved by the Committee shall be awarded the work order.
11. Indexing of the requisite documents must be done and submitted along with the technical bid.


13/3/21
Commandant,

Bihar Military Police-1, Patna.

Memo 801 / GP

Office of the commandant Bihar Military Police-1, Gorkha BN. Patna.

Patna, Date. 13 March 2021.

Copy to:-

- 1, J.A., Bihar Military Police-1, Patna for information and display on the notice board of Bn. H.Q.
- 2, I.T Manager, Police H.Q. Bihar, Patna for information and uploading on Bihar Police Website.


13/3/21
Commandant,

Bihar Military Police-1, Patna.